



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2006/फाल्गुन 29, 1927

No. 259]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2006/PHALGUNA 29, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2006

का.आ. 365(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशियों विषयक आदेश, 1948 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, आप्रवासन चैक पोस्ट, मुनाबाओ के प्रभारी-अधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के मुनाबाओ स्थित आप्रवासन चैक पोस्ट के लिए, "सिविल प्राधिकारी" नियुक्त करती है।

[सं. 25022/08/2006-एफ. I]

दुर्गा शंकर मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2006

S.O. 365(E).—In pursuance of sub-clause (2) of clause 2 of the Foreigners Order, 1948, the Central Government hereby appoints the Deputy Central Intelligence Officer, Officer in-Charge of Immigration Check Post, Munabao as the "Civil Authority" for the purpose of said Order for the immigration check post located at Munabao in the State of Rajasthan from the date of publication of the Notification.

[No. 25022/08/2006-F. I]

D. S. MISHRA, Jt. Secy.